

May 11, 2024

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Symbol: LALPATHLAB

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 539524

Sub: Newspaper advertisement (s)

Ref: Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement of Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024, published in Financial Express and Jansatta on May 11, 2024.

We request you to please take the same on record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For Dr. Lal PathLabs Limited

Vinay Gujral
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 

#### Continue From Previous Page

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited ("NSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE beginning on page 238 of the RHP.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Offer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 25 of the Red Herring Prospectus.

## **BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER** BEELI/M/E

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India. Telephone Number: +91-79-48407357 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah

CIN: U67190GJ2020PTC114322

Place: Mumbai

Date: May 10, 2024

## REGISTRAR TO THE OFFER Bigshare Services Pvt. Ltd.

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No S6-2. 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093, Maharashtra, India Tel No: 022 - 6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail:

investor@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Babu Rapheal C

SEBI Registration Number: INR000001385

**RULKA ELECTRICALS LIMITED** Mrs. Kejal Niken Shah

A - 20, Shiva Industrial Estate Co. Ltd., Lake Road, Near Tata Power, Bhandup West, Mumbai City, Maharashtra-400078, India. Tel. No.: +022 41276806, 022 49742572 E-mail: cs@replservices.com

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Website: www.replservices.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.replservices.com. the website of the BRLM to the Offer at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Rulka Electricals Limited, Telephone+022 41276806, 022 49742572; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91-79-48407357 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: 079 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, RULKA ELECTRICALS LIMITED Sd/-

Rupesh Laxman Kasavkar **Managing Director** 

Disclaimer: Rulka Electricals Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Mumbai on May 09, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.





## **MUTHOOT MERCANTILE LIMITED**

Corporate Identity Number: U65921KL1997PLC011260; PAN: AABCM5297K, Website: www.muthootenterprises.com; Email: info@muthootenterprises.com; Registered Office: 1st Floor, North Block, Muthoot Floors, Opposite W&C Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram 695 014, Kerala, India; Telephone: +91-471-277-4800; Company Secretary and Compliance Officer: Neethu C. Biju; E-mail: cs@muthootenterprises.com; Telephone: +91-471-277-4800;

Chief Financial Officer: Rajeev M R; E-mail: cfo@muthootenterprises.com; Telephone: +91-0471-277-4800;

NOTICE TO INVESTORS ADDENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 02, 2024, ISSUED TO THE PUBLIC ("ADDENDUM")

This is with reference to the prospectus dated May 02, 2024 ("Prospectus"), filed with the Registrar of Companies, Kerala at Kochi ("RoC"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the BSE Limited ("Stock Exchange") in relation to the Issue. In this regard, potential bidders may note the following: The redemption maturity dates for the Series VII and VIII as specified in Prospectus should be read as Thursday, May 27, 2027

instead of Wednesday, May 26, 2027. For further details of the day count convention please refer to Annexure I page no 272 of the

All capitalised terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Prospectus.

Disclaimer: Investors proposing to participate in the Issue, should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investments in this Public Issue of NCDs involves a high degree of risk for details relating to the same, please refer to Prospectus dated May 02, 2024 and the section on "Risk Factors" beginning on page 15 of the Prospectus.

Date: May 10, 2024 Place: Thiruvananthapuram

# STERLING TOOLS LIMITED

Registered Office: UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER, NEW DELHI-110025 CIN: L29222DL1979PLC009668, Website.: www.stlfasteners.com Ph.: 0129-2270621-25, Email Id.: csec@stlfasteners.com

### EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024**

		STANDALONE			(₹ in Lakhs except per share data CONSOLIDATED				
SI.	Particulare	Quarter Ended Year Ended		Quarter Ended		Year Ended			
No.	Particulars	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	16,702.88	15,869.91	61,369.79	60,353.83	27,019.13	21,266.70	93,851.11	77,487.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,610.70	1,144.12	5,174.69	5,327.65	2,131.74	1,327.65	7,180.02	5,988.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,610.70	814.89	5,214.40	5,671.91	2,131.74	988.42	7,219.73	6,332.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,200.63	526.10	3,884.53	4,142.95	1,625.04	777.86	5,536.50	4,787.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	911.16	580.78	3,538.31	4,193.28	1,332.42	830.71	5,188.88	4,838.95
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	Other Equity			42,442.02	39,424.50		16	43,990.37	39,322.26
8	Earnings Per Share (Rs. 2/- each)- (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	3.33 3.33	1.46 1.46	10.78 10.77	11.50 11.50	4.51 4.51	2.16 2.16	15.37 15.35	13.29 13.29

## Notes:

Date: 10th May, 2024

Place: Faridabad

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and Financial Year ended on 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the Financial Results of the company is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and the Company (www.stlfasteners.com).
- 2. The standalone & consolidated financial results of Sterling Tools Limited (the 'Company') for the guarter and Financial year ended 31 March 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th May 2024. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified Audit Opinion on these financial Results.
- 3. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), as specified under section 133 of the Companies Act, 2013, other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended).
- 4. The Company is primarily in the business of manufacturing of fasteners (i.e. automotive components) which falls within a single business segment in terms of the Indian
- 5. The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of Rs. 2/- per Equity share of Face value of Rs. 2/- each for the Financial year 2023-24. For and on behalf of the Board of Directors

Accounting Standard 108, 'Operating Segments' and hence no additional disclosures have been furnished.

Sterling Tools limited Anil Aggarwal Chairman & Managing Director

**AICICI** Securities Primary Dealership Limited

ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai-400 020 CIN: U72900MH1993PLC131900, GST:: 27AAACl0995H1ZG Audited Financial Results for the year ended March 31, 2024 Balance Sheet at March 31, 2024 (₹ in million)

SOL	JRCES OF FUNDS	
1	Shareholder's funds A Share capital 3 Reserves and surplus	1,563.4 16,957.4
	Loan funds	
2-77-116-6	A Secured loans	2,75,812.2
I	3 Unsecured loans	43,769.0
	(of which call/notice/term money	
	borrowings of (34,070.0 million)	
	200 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	3,38,102.0
APP	PLICATION OF FUNDS	1200000
	1 Fixed assets	310.0
- 2	2 Investments -	
	3 Current assets, loans & advances	
	Current assets	
	A I Stock-in-trade	
	(i) Government securities (including T-Bills & CMBs)	2,87,231.4
	(ii) Corporate bonds & debentures	23,097.6
	(iii) Commercial Paper & Certificates of Deposit	5,605.9
	(iv) Equity Shares	2.8
		3,15,937.7
	II Other Current assets	23,064.6
	B Loans and advances	

(of which call money lendings NIL) 18,696.1 3,57,698.4 Less: Current liabilities (19,444.7) 3,38,253.7 454.1 4 Non-Current assets (915.8)Less: Non-Current Liabilities (461.7) 3,38,102.0

1 Income A Interest & dividend income

	C Trading Profit	4,932.1
	D Income from services	258.8
	E Other Income	0.1
		26,289.8
2	Expenses	
	A Interest	18,714.4
	B Administrative & employee expenses	1,284.0
	C Other expenses	436.3
		20,434.7
3	Profit before tax	5,855.1
4	Tax Expense	1,493.4
5	Profit for the year	4,361.7
Ot	ther Comprehensive Income	
1	Items that will not be reclassified to profit	
	& loss (net of tax)	3.3
2	Items that will be reclassified to profit & loss (net of tax)	
	Total Comprehensive Income for the year (comprising	
	Profit/ (loss) and Other Comprehensive Income)	4,365.0
	Regulatory Capital required *	14,317.0
	Actual Capital (including eligible Tier II)	19,030.0

B Discount

- 1 The results have been approved at the Board Meeting held on April 19, 2024 2 The securities held as stock-in-trade are fair-valued
- 3 Net borrowings in call/notice: average ₹18,335.22 million; peak ₹48,655.0 million
- 4 Leverage ratio: average 17.26 times; peak 22.56 times 5 CRAR (Quarterly)\*

7-11	THE PARTY OF THE
Jun 30, 2023	31.4%
Sep 30, 2023	29.3%
Dec 31, 2023	29.1%
Mar 31, 2024	26.6%

6. Details of Issuer composition of investments in non-government securities at March 31, 2024

Issuer"	Amount*	Extent of private placement	Extent of 'unlisted securities'
PSUs	501.1	501.1	Nil
FIs	5,904.3	5,904.3	Nil
Banks	5,255.9	5,255.9	Nil
Other PDs	Nil	Nil	Nil
Private corporates	Nil	Nil	Nil
Subsidiaries/ Joint ventures	Nil	Nil	Nil
Others ** Provision held towards	17,042.2	17,042.2	Nil
depreciation	Nil	Nil	Nil
Total	28,703.5	28,703.5	Nil

All the investments in the above non-government securities are rated above investment

## Others include investments in Non-Banking Financial Companies and Housing Finance Companies

#### **FINOLEX INDUSTRIES LIMITED** CIN L40108PN1981PLC024153

amended from time to time.

Registered Office: Gat No. 399, Village Urse, Taluka Maval, Dist. Pune - 410 506 Tel No.: 02114-237251 E-mail: investors@finolexind.com Website: www.finolexpipes.com

### NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to Investor

Education and Protection Fund (IEPF) Notice is hereby given to shareholders of the Company and published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the Rules') as

The Act and Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend and transfer of all shares in respect of which Dividend has not been claimed by the shareholders for seven consecutive years or more shall be liable for transfer to the IEPF Authority. In compliance with the requirements as set out in the rules, the Company has sent separate communication to the concerned individual shareholder(s) whose share(s) and dividend(s) are liable to be transferred to the IEPF Authority under the Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded complete details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at https://www.finolexpipes.com/investors/compliance-report/ and shareholder(s) are requested to refer the aforesaid link to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEFP Notice is given to all such shareholder(s) to make an application to the

Company/ M/s. Kfin Technologies Limited ('RTA' of the Company) with a request letter and requisite forms (available on the website of the Company at https://www.finolexpipes.com/investors/investorsrelations-centre/and RTA at https://ris.kfintech.com/ clientservices/isc/isrforms.aspx) duly signed by all holders and in case of joint holder(s), by first joint holderwith proper identification proofs for claiming the unclaimed dividend in order to avoid the transfer of dividend and shares to the IEPF Authority.

In case the Company/ RTA does not receive any communication by Saturday, September 14, 2024, the Company in compliance with IEPF Rules shall transfer the said shares to the IEPF Authority without any further notice in this regard, including all the benefits accruing on such

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Authority pursuant to the said Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company or M/s. KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana India - 500 032; Tol Free No: 1-800-309-4001; Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

For Finolex Industries Limited

Ajit Venkataraman Managing Director DIN: 07289950

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## 3 Dr Lal PathLabs

## **Dr. Lal PathLabs Limited**

CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085

Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram – 122 001, Haryana Phone: +91 124 3016500 | Fax: +91 124 4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED/AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31 MARCH, 2024

(Rs. in million except as stated)						
S. No.	Particulars	3 months ended 31 March, 2024 31 March, 202		Corresponding 3 months ended 31 March, 2023		
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)		
1	Total Income from Operations	5,638	22,958	5,052		
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	1,199	5,055	832		
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	1,199	5,055	832		
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	858	3,623	569		
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	849	3,617	549		
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	835	835	834		
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)					
7	(a) Basic (In Rs.)	10.13	43.05	6.84		
	(b) Diluted (In Rs.)	10.12	42.98	6.82		

\*Before non-controlling Interest

i. Key numbers of the Standalone Results are as under:

(Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	3 months ended Year 31 March, 2024 31 Mar		Corresponding 3 months ended 31 March, 2023	
NO.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	4,949	20,269	4,426	
2	Profit for the period before Tax	1,205	5,160	981	
3	Profit for the period after Tax	895	3,844	714	
4	Total comprehensive income	891	3,841	698	

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10 May, 2024.
- The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.
- The consolidated other equity(excluding revaluation reserve) as on 31 March 2024 is 17,658 Million
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and year ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited (Hony) Brig. Dr. Arvind Lal **Executive Chairman** 

Place: New Delhi

Date: 10 May, 2024





Din No: 00027214

New Delhi

Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2024

18,661.6 2,437.2

25.42%

Pune, May 10, 2024

Return on Net Worth

\*Calculated as per Master Direction - Standalone Primary Dealers (Reserve Bank) Directions, 2016 dated August 25, 2016 issued by the Reserve Bank of India. (Ref. RBI circular no. IDMD.PDRS.No.03/03.64.00/2003-04)

(₹ in million)

Issuer'	Amount*	Extent of private placement	Extent of 'unlisted securities'
PSUs	501.1	501.1	Nil
Fls	5,904.3	5,904.3	Nil
Banks	5,255.9	5,255.9	Nil
Other PDs	Nil	Nil	Nil
Private corporates	Nil	Nil	Nil
Subsidiaries/ Joint ventures	Nil	Nil	Nil
Others <sup>sr</sup>	17,042.2	17,042.2	Nil
Provision held towards	1100000	200	
depreciation	Nil	Nil	Nil
Total	28,703.5	28,703.5	Nil

# Does not include equity and preference shares

financialexp.epa

view the Prospectus



### **MUTHOOT MERCANTILE LIMITED**

Corporate Identity Number: U65921KL1997PLC011260: PAN: AABCM5297K. Website: www.muthootenterprises.com; Email: info@muthootenterprises.com; Registered Office: 1st Floor, North Block, Muthoot Floors, Opposite W&C Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram 695 014, Kerala, India; Telephone: +91-471-277-4800; Company Secretary and Compliance Officer: Neethu C. Biju; E-mail: cs@muthootenterprises.com; Telephone: +91-471-277-4800;

Chief Financial Officer: Rajeev M R; E-mail: cfo@muthootenterprises.com; Telephone: +91-0471-277-4800; NOTICE TO INVESTORS

#### ADDENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 02, 2024, ISSUED TO THE PUBLIC ("ADDENDUM")

This is with reference to the prospectus dated May 02, 2024 ("Prospectus"), filed with the Registrar of Companies, Kerala at Kochi ("RoC"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the BSE Limited ("Stock Exchange") in relation to the Issue. In this regard, potential bidders may note the following:

The redemption maturity dates for the Series VII and VIII as specified in Prospectus should be read as Thursday, May 27, 2027 instead of Wednesday, May 26, 2027. For further details of the day count convention please refer to Annexure I page no 272 of the

All capitalised terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Prospectus.

Disclaimer: Investors proposing to participate in the Issue, should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investments in this Public Issue of NCDs involves a high degree of risk for details relating to the same, please refer to Prospectus dated May 02, 2024 and the section on "Risk Factors" beginning on page 15 of the Prospectus. Place: Thiruvananthapuram Date: May 10, 2024 CONCEPT

#### **ETT LIMITED**

CIN: L22122DL1993PLC123728

Regd. Off: 8/18 Basement, Kalkaji Extension, Kalkaji, South Delhi, New Delhi-110 019, India T & F: +91 9911089289 | Email: ettsecretarial@gmail.com

#### STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31ST, 2024

	Particulars		Quarter Ende	d	Year I	Ended
SI	Particulars	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
No.	(Refer Notes Below)	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Income	- S	1/2	50 39	100	
(a)	Revenue from operations	25	52	6.28		71.99
b)	Other Income	71.84	70.83	64,34	274.20	208.30
	Total income from Operations (net)	71.84	70.83	70.62	274.20	280.29
	Expenses	50/01/01/01/01	100000	0.000		
a)	Employee benefits expense	2.70	2.45	1.27	9.42	24.33
b)	Finance costs		-		200	1.23
c)	Depreciation and amortization expense			0.13		23.41
d)	Other Expenses	13.08	8.22	8.38	29.23	71.87
	Total expenses	15.78	10.67	9.78	38.65	120.84
3	Profit / (Loss) before exceptional items & Tax (1-2)	56.06	60.16	60.84	235.55	159.45
	Exceptional items			6.32		835.85
5	Profit / (Loss) before tax (3+4)	56.06	60.16	67.16	235.55	995.30
3	Tax expense	100 din tutus	8.80091	eseroviocne	100000000000000000000000000000000000000	VID.DECTOR
(i)	Current Tax	00410		340	00#00	340
ii)	Income Tax Paid of Earlier Years	541	0.65	2	0.65	
iii)	Deferred Tax	16.56	16.10	11.98	61.41	145.05
,	Profit / (Loss) after tax (5-6)	39.50	43.41	55.18	173.49	850.25
3	Other Comprehensive Income (net of tax)		3200	\$100000000	107117	100000
A (I)	Items that will not be reclassified to profit or loss	818	122	(2.38)	828	(2.38)
ii)	Income tax relating to items that will not be reclassified			10000		(4.00)
ere.	to profit or loss	1141	2	0.62	5253	0.62
3 (i)	Items that will be reclassified to profit or loss	3000	35		2040	0.00
ii)	Income tax relating to items that will be reclassified	3068	003	3.0		
39	to profit or loss	898	35	100	8.50	
9	Total Comprehensive Income for the period (7+8)	1256	1551	-		
23	(Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive					
	Income for the period)	39.50	43.41	53.42	173.49	848.49
0	Paid-up equity share capital (Face value of ₹10/- per share)	1,036.87	1,036.87	1,036.87	1,036.87	1,036.87
11	Earnings per share (in ₹) (of ₹10/- each)	350,000000	(MESSAGE)	-0800300000	0.65,515,020	0.0000000000000000000000000000000000000
a)	Basic	0.38	0.42	0.53	1.67	8.20
b)	Diluted	0.38	0.42	0.53	1.67	8.20

- The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May
- \*The figure for the last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of relevant financial year.
- The Statement of Cash Flow has been prepared under Indirect Method as set out in Indian Accounting Standards (Ind AS7) "Statement of Cash Flow" The Company is primarily engaged in single Business Segment (Property Developers and Allied Services) and Geographical Segment (India). Hence,
- additional disclosure under Ind-AS 108 on Operating Segment is not applicable.

The figures for the corresponding previous quarter / periods have been recasted / regrouped, wherever considered necessary for and on behalf of ETT Ltd. Nitin Ashok Kumar Khanna Date: 10.05.2024 Additional Director

Place: New Delhi

## RELAXO FOOTWEARS LIMITED

DIN: 09816597

CIN: L74899DL1984PLC019097

RELAXO Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692 E-mail: cs@relaxofootwear.com, Website: http://www.relaxofootwear.com

## PUBLIC NOTICE

## FOR ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Members of Relaxo Footwears Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 and Section 108 and rules made thereunder and any other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 09/2023 dated September 25, 2023 and all other applicable circulars as issued from time to time (hereinafter collectively referred to as the "MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations"), companies are allowed to take all decisions of urgent nature requiring the approval of Members, other than items of ordinary business or business where any person has a right to be heard, through the mechanism of postal ballot / electronic voting in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 09, 2024, has proposed to seek the consent of the shareholders of the Company through postal ballot process by way of electronic voting ("Remote E-voting") facility to transact the business set out in the Postal Ballot Notice ("Notice"), which will be sent to the shareholders in due course of time. The details of the process and manner to cast vote through Remote e-Voting facility will be provided in the Notice.

In terms of the MCA Circulars, the Company will send the Notice, only by e-mail, to those Member(s) whose e-mail address is registered with the Company/ Depository Participant(s) as on Tuesday, May 14, 2024 ("cut-off date") fixed for the purpose. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope is not being sent to the Members for this Postal Ballot.

Therefore, those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail address registered by following the procedure given herein below:

## Registration of e-mail id for shareholders holding shares in physical form:

For registering the Bank account details / Mobile Number / E-mail ID / PAN, please visit the RTA's website <a href="https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx">https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx</a>, download the ISR-1, ISR-2 and SH-13, as applicable, and send the duly executed physical documents with the supporting to the RTA.

## Registration of e-mail id for Demat shareholders:

It is clarified that for registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

Those Members who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail address validated with their Depository Participants/ the Company's RTA.

The Postal Ballot Notice will be sent to all the Members in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

> By Order of Board of Directors For Relaxo Footwears Limited

Place: Delhi Date: May 10, 2024

Ankit Jain Company Secretary & Compliance Officer क्रिड्यन ओवरसीज बैंक एमआई राड शाखा, जवपुर (११२४) ११, ऋतुवज स्वरूप, १०००, एमआई रोड शाखा, जयपुर (0158) 11, ऋतुराज विल्डिंग,

ईमेल: iob0158@iob.in फोन- 0141-2371711, 2361710 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना प्रतिभूत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों क प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तिय

के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस । आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीरं वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी हैं, का रचानात्मक कब्जा इंडियन ऑवरसीज बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को *'जहां है, जैसी है, औ*र जो कुछ भी है" के आधार पर बकाया रू. 1,11,07,203.12 (रूपये एक करोड ग्यारह लाख सात हजार दो सौ तीन एवं बारह पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2024 तक व 01.05.2024 से अनुबंध की दर पर आगे का ब्याज, पूर्ण भुगतान होने तक शुल्कों सहित शेष हेतु निम्नलिखित ऋणीयों / जमानतदारों से इंडियन ऑवरसीज बैंक, प्रतिभृत लेनदार के बकायों की वसूली हेत् दिनां क 28.05.2024 को विक्रय किया जायेगा।

ऋणी (नाम और पुरा पता): 1.मैसर्स अग्रिम डेयरी (पार्टनरशिप फर्म) (ऋणी) पता: एल-६, प्रथम तल, चितरंजन पार्क, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली–110019, पताः मृतल, दुकान नंबर 1921/19, गोविदपुरी एक्सटेंशन कालकाजी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली–110019, इकाई / फर्म का पता: ग्राम क्भपूरिय पोरट- नांगल, कोजू, पटवारहल्का नागलकोजू, तहसील बीमू, सीकर रोड, जिला जयपुर-303804 2.श्री श्याम सिंह बीघरी पुत्र श्री बीरबल सिंह (साझेदार), 3.श्री परमिंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री तेहल सिंह (साझेदार), 4.श्री देवांग अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (साझेदार), श्री आदित्य कुमार अनुज पुत्र श्री श्याम सिंह (साझेदार) सभी साझेदार निवासी: ऐम 9, प्रथम पलोर, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली-- 110019, गारंटर (नाम और पूरा पता): 6.श्री श्याम सिंह बौधरी पुत्र श्री बीरबल सिंह (गारंटर), पताः एम९, प्रथम तल, कॉलकाजी, दक्षिणी दिल्ली-110018, 7.श्री परमिंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री तेहल सिंह (गारंटर और बंधककर्ता), 8.श्री देवांग अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (गारंटर और बंधककर्ता), 9.श्री आदित्य कुमार अनुज पुत्र श्री श्याम सिंह (गारेंटर एवं बंधककर्ता), सभी (गारंटर एवं बंधककर्ता) निवासी: एम9, प्रथम तल, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली-110019

आरक्षित मृत्य रुपये 75,75,800/- 1 प्रतिशत टीडीएस (रु. 75,800/-) सहित होगा और चूंकि कर की गणना केवल आरक्षित मूल्य पर की गई है, इसलिए बोली लगाने वाले को बोली गुणके राशि पर 1प्रतिशत आयकर वहन करना होगा। बैंक इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री आदित्य कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह, श्री परमिंदर सिंह पुत्र श्री तेहल सिंह और श्री देवांग अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के नाम से औद्योगिक सम्पत्ति जिसमें खाता नंबर 48, खसरा नंबर 2017/2008. रबका 0.63 हेक्टेवर अर्थात 6300 वर्गमीटर जो गांव कुंभप्रिया, पोस्ट नांगल, कोज्, पटवार हल्का नागल कोज, तहसील चौमूं, सीकर रोड, जिला जवपुर, राजस्थान में स्थित है। सीमाएं:- उत्तर में: खसरा नंबर 1604, दक्षिण में: सड़क, पूर्व में: खसरा नंबर 1609/1, पश्चिम में: खसरा नंबर 2009/1611 \*स्थानीय स्वशासन का बकाया रु... (संपत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली बिल इत्यादि)– बैंक को जात नहीं।

\*बैंक के बकाए को वैधानिक बकाए की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। ई-नीलामी की तिथि और समय: दिनांक 28.05.2024 को दोपहर 1.00 बजे से शाम 4.00 बजे के मध्य नीलामी प्लेटफार्म https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi पर (प्रत्येक 10 मिनट के

स्वतः विस्तार सहित) विक्री पूरी होने तक। विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेवा प्रदाता लिंक https://www.mstcecommerce.com auctionhome/ibapi या वैक की वेबसाइट https://www.iob.in देखे।

वास्ते इण्डियन ओवरसीज बैंव तारीखः 06.05.2024 प्राधिकृत अधिकार स्थानः जयपुर इस नोटिस को उक्त ऋण के ऋणियों और गारंटरों को उपर्युक्त तिथि को ई-नीलामी आयोजित करने कें बारे में प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 कें नियम 8(6) / नियम 9(1) कें तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

#### उत्तर रेलवे

इ-निविदा (इ-प्रोक्युर्मेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण निम्नलिखित कार्य के लिये वरिष्ठ मंडल अभियंता /॥, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल में इ-निविदा

NIT-10 कार्य का नाम :- सहायक मंडल अभियंता मेरठ के तहत SSE/W/MTC के खंड मे पलों की मरम्मत और रखरखाव का प्रावधान के लिए वार्षिक जोन 2024-25 (समाप्त अवधि 30.06.2025)। कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार ।

बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। 2 NIT-13 कार्य का नाम :- वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितिय के तहत सहायक मंडल अभियंता गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में अधिकारी विश्राम ग्रह में 2 फेमिली सुट व 6 अलग-अलग सटस का प्रावधान।

कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार । बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। 3 NIT-14 कार्य का नाम :- वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितिय के तहत सहायक मंडल अभियंता गाजियाबाद के अनुभाग में मानक गिरोह कक्ष PWI स्टोर में सुधार और टल बॉक्स की मरम्मत का प्रावधान।

बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। 4 NIT-15 कार्य का नाम :- वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितिय के तहत सहायक मंडल अभियंता गाजियाबाद के अनुभाग में पी.वे प्रशिक्षण संस्थान में पूर्ण क्षेत्र के साँदर्यीकरण के साथ कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, नए महिला छात्रावास, चेंजिंग रूम का उन्नयन आधनिकीकरण का प्रावधान।

कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :- IREPS पर NIT के अनुसार ।

कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। 5 NIT-16 कार्य का नाम :- सहायक मंडल अभियंता मेरठ के तहत SSE/W/MOZ & MTC के सेक्शन में 2 साल के लिए LHS (20 संख्या में) की डिवाटरिंग का कार्य । कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार।

बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। 6 NIT-17 कार्य का नाम :- सहायक मंडल अभियंता शामली के तहत SSE/PWAY/SMQL और SSE/PWAY/BTU के अनुभाग में LHS का की डिवाटरिंग का कार्य । कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार।

NIT-18 कार्य का नाम :- सहायक मंडल अभियंता शामली के अनुभाग SSE/P.way/BTU के खंड में ट्रैक के रखरखाव के लिए वार्षिक जीन 2024-25 कार्य का प्रावधान। (समाप्ति अवधि 30.08.2025) कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार। बयाना राशि (रुपये) :-IREPS पर NIT के अनुसार।

2 निविदा बोली प्रस्तुत करने तिथि और समय 21.05.2024 से 04.06.2024 at 15:00 Hrs. 3 निविदा खोलने की तिथि और समय 04.06.2024 15:00 Hrs. 4 वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों निविदा www.ireps.gov.in वेबसाइट का पुरा विवरण देखा जा सकता है पर उपलब्ध।

 ठेकेदारों को ई-टेंडर प्रणाली में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (IREPS) साइट www.ireps.gov.in के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। • सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें। • मैनुअल निविदाये स्वीकृत नहीं की जायेगी • निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या भूगतान गेटवे के माध्यम से रवीकार्य होगी । सं: NIT-10, 13 से 18-24-25-W-II दिनांक : 10.05.2024 1421/2024

## ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय : एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स

कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुंबई-400025 दिल्ली कार्यालय : द्वितीय तल, 25 - पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 दूरभाष सं. : 011-43556440, ईमेल- debenturetrustee@axistrustee.in, वेबसाइट : www.axistrustee.in

अधिग्रहण सूचना

जबिक. नीचे हस्ताक्षरकर्ता, प्रतिभृतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्त अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड (फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटे - फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 24–5 के लिए और उसकी ओर से कार्य करते हुए) के अधिकृत अधिकारी हो के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए 5 दिसंबर 2023 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें 1) आईआरईओ प्राइवेट लिमिटे (उधारकर्ता), 2) एस्पिरंट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 3) ऑर्नामेंटल रियलटर प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता), 4) बीटीवीएस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), फाइवरिवर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 6) बज़ होटल्स प्राइवेट लिमिटे (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 7) बुल्स रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), मैसिफ कॉनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 9) न्यूक्लियस कॉनबिल्ड प्राइवेट लिमिटे (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 10) केएसएस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर),1 कमांडर रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 12) रीगल ग्रीन लैंड्स प्राइवेट लिमिटे (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 13) हाई स्टार बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर 14) हाई रिस्पॉन्सिबल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 15) फाइवरिवर डेवलप प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 16) फाइवरिवर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता औ कॉर्पोरेट गारंटर), 17) हाई एनर्जी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 18) एडस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 19) हाई प्रोफाइल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटे (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 20) सनसाइन रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर 21) सांग प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर), 22) गोल्डन व्यु बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटे (बंधककर्ता), 23) बेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता), 24) हार्ड कोर रियलटर्स प्राइवेट लिमिटे (बंधककर्ता), नोटिस में उल्लिखित राशि ४,४२,७०,३८,१०७ रुपये (भारतीय रुपए चार सौ बयालीस करोड़ सत्त लाख अड़तीस हजार एक सौ सात मात्र) को भविष्य के ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ उक्त नोटिस व प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 31 अक्टूबर 2023 तक चुकाना होगा।

ऋणकर्ता, बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणकर्ता, बंधककत कॉर्पोरेट गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8 के साथ, इस वर्ष 2024 के मई माह के 7वें दिन अनुसूची ("प्रतिभूत संपत्ति") में वर्णित संपत्ति क

ऋणकर्ता, बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर का ध्यान, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय व संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। उधारकर्ता, बंधककर्ता और कॉर्पोरेट गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड (फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड – फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 24-5 के लिए और उसकी ओर उ कार्य कर रहा है) के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि 31 अक्टूबर 2023 तक 4,42,70,38,107 रुपये (भारतीय रुपये चार सौ बयालीस करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ सात मात्र) होगी और उस पर ब्याज लागत, शुल्क आदि होंगे।

#### सुरक्षित संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित पृष्ठों पर दिया गया है : अनुसचीः अचल संपत्ति का विवरण प्रोजेक्ट- ग्रैंडआर्क

#### मालिकों / बंधककर्ताओं का नाम : बुल्स रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाई प्रोफाइल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाई एनर्जी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एडसन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसिफ कॉनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड

21.14 एकड़ की व्यावसायिक भूमि, सेक्टर 58, जिला गूड़गांव, हरियाणा में स्थित प्रोजेक्ट ग्रैंडआर्क व अनबिके स्टॉक के साथ, जिसका बिक्री योग्य क्षेत्रफल 38928.95 वर्ग फीट है, जिसमें 9 अनबिके यूनि हैं, जिनमें से केवल एक यूनिट अनबिके रह गई है और ऋणदाता के पक्ष में चार्ज की गई है, जिसका

क्र. सं. परियोजना नाम यूनिट नाम विक्रययोग्य क्षेत्रफल (वर्ग फूट)

1 ग्रांड आर्क जीए-जी-02-03

स्थान : गुड़गांव

1 7		कुल	1608.59			
	बंधककृत चल संपत्तियों का विवरण					
उधारकत	र्ता की सभी चल मर्श	ोनरी, मूर्त और अमूर्त	संपत्तियां (वर्तमान और भविष्य दोनों),	जिसमें चल मशीनरी शामिल		
है, लेकि	न इन्हीं तक सीमित	नहीं है, वायरिंग, पाइप	ालाइन, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, ऋणदात	ना (अब समनुदेशिती) के लाभ		
के लिए	सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष	में चार्ज किए गए, वि	जेन्हें अधिक विशिष्ट रूप से दृष्टिबंधक	o कार्यों में वर्णित किया गया		
है, जिन	का विवरण नीचे दिय	ा गया है:				
	<del>→</del> → <del>-</del>	<del>*************************************</del>				

350 करोड़ के ऋण समझौते के संबंध में एक्सिस टस्टी सर्विसेज लिमिटेड़ के पक्ष में इरियो प्राइवेट लिमिटेड़ द्वा निष्पादित 31 अगस्त 2017 की दृष्टिबंधक विलेख।

2. 375 करोड़ के ऋण समझौते के संबंध में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में इरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वार निष्पादित 16 अक्टूबर 2017 की दिष्टबंधक विलेख। 3. 25 करोड़ के ऋण समझौते के संबंध में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में इरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वार निष्पादित 25 अक्टूबर 2018 की दृष्टिबंधक विलेख। 4. 85 करोड़ के ऋण समझौते के संबंध में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में सनसाइन रियलबिल्ड प्राइवेट

लिमिटेड द्वारा निष्पादित 14 अक्टूबर 2019 की दृष्टिबंधक विलेख। 5. 26 फरवरी 2020 को आइरियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्सिस टस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित तीन संशोधित बंधक विलेख। 6. 29 जनवरी 2021 को सनसाइन रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष

निष्पादित संशोधित बंधक विलेख। मांग सूचना की तिथिः 05.12.2023 मांग सूचना में अभ्यर्थित राशिः 31 अक्टूबर 2023 के अनुसार रु. 4,42,70,38,107/— (भारतीय रुपये चार सौ बयालीर

करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ सात मात्र) और उस पर ब्याज, लागत, शुल्क आदि। अधिग्रहण लिये जाने की तिथि: 07.05.2024 दिनांक : 07-05-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकार्

ई-नीलामी सह विक्रय की सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV ए) |नियम ८(6)| वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पू में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिजात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालय: भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुडगांव-122015 (हरियाणा), शाखा कार्यालय:-- 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबिक आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की क्सूली हेतू, निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का **''जैसी हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार तथा बिना वसली आधार**" पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

सह-ऋणकर्ता(ऑ) / गारंटर रों के नाम 1. श्री पारंश्वर प्रसाद मैदुली 2. श्रीमती संगीता देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10021235)	एवं राषि  19 अक्टूबर 2022  रु. 16,95,157 / — (रुपये सोलह लाख पिचानबे हजार एक सौ सत्तावन मात्र)  बोली वृद्धि राशि  रु. 25,000 / — (रुपये पच्चीस हजार मात्र मात्र)	परिसंपत्ति का विवरण  संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो निर्मित संपत्ति के रूप में द्वितीय तल पर, पृष्टभाग (बायें हाथ की ओर) पर, कॉर्पेट क्षेत्राधिमापन ४०५ वर्ग फुट तथा अधि निर्मित क्षेत्राधिमापन ४५० वर्ग फुट, भूखंड सं.—17, टी—एक्स. (जैन कॉलोनी) पार्ट—1, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110059 में स्थित है।	कुल बकाया रू. 21,80,534 /—	रु. 11,58,000 /— (रुपये ग्यारह लाख छप्पन हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,15,600 /— (रुपये एक लाख पंद्रह हजार छह सौ मात्र)
	ते के निरीक्षण की तिथि	धराज अंतिम तिथि	ई नीलामी की	
24-मई-2	:024 को 11:00 — 14:00 बजे	27—मई—2024 को 5:00 बजे तक	30-मई-2024 को 1	l1:00—13:00 बजे

मुगतान का माध्यम :-- धराज भुगतानों को केवल ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने के लिये आपको https://www.iiflonehome.com पर विजिट करना होगा और केवल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। टिप्पणी : प्रत्येक संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजनिक

सफल बोलीदान होने पर, शेष भुगतान के लिये, आपको आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम :- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम :- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ग) खाता सं. :- 9902879xxxxx, उसके बाद प्रोस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोड :- SCBL0036001. ड.) बैंक पता :-स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

नियम एवं गर्ते : 1. ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiflonehome.com/ के स पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रपत्र'', धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एव पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत / प्रेषित करने होंगे।

बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वद्धि राषि'' के अंतर्गत अंकित राषि के गणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जात है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। 3. सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि

की शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपृष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित 4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारों का भूगतान वहन करना होगा।

5. बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदर प्रपत्र हेत् वेबसाइट https://www.iiflonehome.com एवं https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। विवरणों, सहायता प्रक्रियों तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी :- care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइ-

नंबर्स रू 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं। सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली, इत्यादि से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार व मध्य प्रातः 9.30 बजे से सायं 18.00 बजे तक कॉल करें या care@iiflonehome.com पर ईमेल करें।

8. एतदुद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पित स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेत् उत्ज्ञारदायी नहीं होगी। 9. एतदद्वारा उधारकर्ता/ओं को आगे यह सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने में विफल होते हैं तो उन्हें विधि—व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा।

10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राषि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। 11. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा/नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा/नीलामी में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 9 उप-नियम (1) के अंतर्गत 15 दिवसीय विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतदृद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगत करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी / उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी। स्थान : दिल्ली, दिनांक : 11-मई-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड



### **Dr. Lal PathLabs Limited**

CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085

Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram – 122 001, Haryana **Phone:** +91 124 3016500 | **Fax:** +91 124 4234468; **Website:** www.lalpathlabs.com; **Email:** cs@lalpathlabs.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED/AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31 MARCH, 2024 (Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	3 months ended 31 March, 2024 (Unaudited)		Corresponding 3 months ended 31 March, 2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	5,638	22,958	5,052
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	1,199	5,055	832
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	1,199	5,055	832
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	858	3,623	569
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	849	3,617	549
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	835	835	834
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)			
7	(a) Basic (In Rs.)	10.13	43.05	6.84
	(b) Diluted (In Rs.)	10.12	42.98	6.82

Before non-controlling Interest

Key numbers of the Standalone Results are as under:

(Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	3 months ended 31 March, 2024 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2024 (Audited)	Corresponding 3 months ended 31 March, 2023 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations	4,949	20,269	4,426	
2	Profit for the period before Tax	1,205	5,160	981	
3	Profit for the period after Tax	895	3,844	714	
4	Total comprehensive income	891	3,841	698	

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10 May, 2024. iii. The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the

Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.

iv. The consolidated other equity(excluding revaluation reserve) as on 31 March 2024 is 17,658 Million

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and year ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited (Hony) Brig. Dr. Arvind Lal

Place: New Delhi Date: 10 May, 2024

किया जाता है।

## **UJJIVAN SMALL FINANCE BANK**

द्वितीय मंजिल जीएमटीटी बिल्डिंग डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (यूपी) - 201301

**Executive Chairman** 

दिनांक 21.02.2024 व

रु. ८,04,473 ∕ – साथ

दिनांक 25.02.2024 त

**र. 21,65,122 / -** साथ

अनुबंधित दर पर ब्याज

रु. 4,51,228 ∕ - औ

27.02.2024 से अनुबंधित

ही 26.02.2024

और अन्य शुल्क।

2002 के कार्यान्वयन की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना एततद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और कहा है कि सुविधाएं प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस उधारकर्ताओं / गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा जारी किए गए थे, हालाँकि, नोटिस बिना तामील किए वापस कर दिए गए हैं और प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उधारकर्ता / गारंटर नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और पेपर प्रकाशन के माध्यम से सुरक्षा हित अधिनियम,

उधारकर्ता / गारंटर के नाम और शाखा	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि			
शाखाः जयपुर (राजस्थान) 1. पवन कुमार पुत्र भीखा राम उर्फ भीखा राम	भूमि और भवन का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 88.8 वर्ग	22.12.2023		दिनांक 21.12.2023 <b>रु. 8,08,603 /</b> — और :			
पारीक प्लॉट नंबर ३९, हनुमान नगर फर्स्ट लालचंदपुरा, हाथोद, जयपुर	पारीक प्लॉट नंबर 39, हनुमान नगर फर्स्ट, यार्ड स्कीम हनुमान नगर—1, लालचंदपुरा, करधर्न लालचंदपुरा, हाथोद, जयपुर प्लॉट नंबर 39, इमारतों, संरचनाओं और उन प सारामान 202012 महा भी र पारीक सीमाएँ: पवर्र्फ अन्य भिन, पश्चिमः सार्वजनिक सङ्						
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर शॉप नंबर 1, श्रीरामपुरी कॉलोनी, नीवारू रोड झोटवाड़ा,	दक्षिणः प्लॉट नंबर 40 संपत्ति श्रीमती १						

जयपूर, राजस्थान-302012 2. शकुंतला पत्नी भीका राम / भीका राम पारीक प्लॉट नंबर 39, हनुमान नगर प्रथम, लालचंदपुरा, हाथोद, जयपुर, राजस्थान–302012, संपत्ति पर ऋण (खाता संख्या 228276100000014ਟੀ)

प्लॉट पर फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित

घर का वह सारा हिस्सा और पार्सल

संपत्ति का वह सारा हिस्सा और

उत्तरः अवधराज का घर, दक्षिणः सड़क.

ज्ञापन दिनांकः 23.09.2017.

शाखाः राज नगर अहमद (उधारकर्ता) पेट्रोल पंप के पास, पिपलेहड़ा हापूड, उत्तर प्रदेश-201302, 2. जमशेद अहमद पुत्र अब्दुल रहमान (सह–उधारकर्ता / गारंटर) पेट्रोल पंप के पास, पिपलेहड़ा हापूड, उत्तर प्रदेश -201302 यहां भीः मुस्कान हाउस, पिपलेहड़ा हापुड, डासना, आर.एस. उत्तर

खसरा नंबर 116 में से 40 वर्ग गज यानी 33.46 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, गांव दर पर ब्याज और अन्य 22.02.2024 से अनुबं पिपलीहड़ा (करीम कॉलोनी), परगना दसाना, तहसील: धौलाना, जिला शुल्क। हापुड, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार हैरू सीमाएं पूर्वः इस्लामुद्दीन का भूखंड, पश्चिमः सखावत का बर्तन, उत्तरः सखावत का भूखंड, दक्षिणः रास्ता। यह संपत्ति मोहम्मद शकील सियो जमशेद जमशेद अहमद यानी नं. की है। आप में से 1. बंधक

निर्माण के लिए स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांक: 21.07.2021

26.02.2024

03.02.2024

प्रदेश — 201302, 3. खुर्शीद बेगम उर्फ खुर्शीद बेगम (सह—उधारकर्ता / गारंटर) पत्नी मोहम्मद शकील पेट्रोल पंप के पास, पिपलेहड़ा हापुड, उत्तर प्रदेश–201302, मकान नंबर 246, करीम नगर एमओ, पिपटेहरा , थाना मसूरी (भाग), तहसील: धौलाना, जिला हापुड–201302। एमएसई सुरक्षित

-1	
	शाखाः जंगल सिकरी गोरखपुर
	1. अवधराज कुमार मोदनवाल अवधरा
	पुत्र बेचू (उधारकर्ता) बेंदुआर, अहिरौली
	जिला–कुशीनगर, उत्तर प्रदेश पिन कोङ
	274149, 2. रीता देवी पत्नी अवधरा
	(सह–उधारकर्ता / गारंटर) बेंदुआ अहिरौली, जिला–कुशीनगर , उत्तर प्रदेश
	पिन कोड– २७४१४९. आवास ऋ
ı	(111 4/10 2/4/49. 0191(1 /z

वर्तमान स्थिति

अविक्रयकृत

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटे

ऋण (एनसी नंबर 2210210080000023)।

02.03.2024 पार्सल) जिसका आकार 517.6 वर्ग फूट है, आराजी संख्या 491 में स्थित है। (1) 256 वर्ग मीटर की आवासीय संपत्ति। आराजी नंबर 491, मौजा विंदुआर, टप्पा विंदुआर परगना – हवेली, तहसील–हाटा, जिला–कुशीनग में स्थित फीट, जिसकी सीमा इस प्रकार हैरू सीमाएं: पूर्वः प्रमोद शुक्ला का घर, पश्चिमः सड़क,

(2) 261.6 वर्ग मीटर की आवासीय संपत्ति आराजी नंबर 491, मौजा–विन्दुआर, टप्पा विन्दुआर परगना– हवेली, तहसील– हाटा, जिला–कुशीनगर में स्थित फीट, जिसकी सीमा इस प्रकार है

क्त सीमाएँः पूर्वः प्रमोद शुक्ला का घर, पश्चिमः सङ्क, उत्तरः धर्मेंद्र मोदनवाल का घर, दक्षिणः भूमि रीता देवी। संपत्ति रीता देवी पत्नी अवधराज की है यानी नं. आपके बीच 2. बंधक निर्माण के लिए स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांक रू 25/08/2022 प्लॉट का पूरा हिस्सा और पार्सल पूर्व दिनांक 26.02.2024 क 02.03.2024

ı	1. शेर अली पुत्र रसीद (उधारकर्ता) 514 के,	में
ı	पाडली गुजर मिलाप नगर, रूड़की हरिद्वार	9
ı	उत्तराखंड — 247666, 2. जेबुनिशा पत्नी	59
ı	शेर अली (सह—उधारकर्ता / गारंटर) 514	l ग्र
ı	के, पाडली गुर्जर, पी.ओ.— मिलाप नगर	। में
ı	रूड़की, हरिद्वार , उत्तराखंड — 247667 .	١.
ı	आवास ऋण (खाता संख्या	ਤ `
ı	222879700000007)	से

दर पर ब्याज और अन्य 597.32 वर्ग फीट। या 55.51 वर्ग. मीटर, खसरा 473एम नंबर से संबंधित शुल्क। प्राम पाडली गुज्जर, परगना और तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार है: सीमाएं: पूर्व: रहीस का प्लॉट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट, उत्तरः सड़क, दक्षिणः राजकुमार का प्लॉट। संपत्ति शेर अल्ल पुत्र रसीद यानी नं. की है। आप मे

उपरोक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस मे उल्लिखित राशि का भुगतान करें, अन्यथा नोटिस की तारीख के 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार। इसके अलावा, उधारकर्ता / गारंटर को ऊपर उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने से रोका जाता है, हमारे बिना पूर्व सहमति। यह विषय अधिनियम औरध्या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल

(एएलसी नंबर 2365210170000025) शाखाः रूड़की ( उत्तराखंड )

27 फीट 2 इंच, पश्चिम में 26 फीट इंच, उत्तर में 22 फीट 2 इंच, दक्षिण में 22 फीट 2 इंच, कुल क्षेत्रफ

से 1. बंधक निर्माण के लिए स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 24.11.2017

10.02.2024

प्रभाव डाले बिना है। दिनांकः 10.05.2024 स्थानः राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्राधिकृत अधिकारी

नर्ड दिल्ली

www.readwhere.com